



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 11—सितम्बर 17, 2004 (भाद्रपद 20, 1926)  
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2004 (BHADRA 20, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION IV]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से  
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry  
of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2004

सं. 448, दिनांक 11 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तरांचल: 67) के अधिकारी श्री अजय विक्रम सिंह का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 1 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीप्रकाश  
निदेशक

सं. 449, दिनांक 11 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति, श्री हेमंत बिजोय महंत (भा. रा. से. : 87033) को 7.7.2004 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष के लिए अथवा उनके रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक स्तर पर, 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री बी. के. हांडिक) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह मंत्रालय की इससे पूर्व 9.7.2004 को जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करता है।

राष्ट्रपति, श्री हेमंत विजय महंता (भा. रा. से. : 87033) को 7.7.2004 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि के लिए या रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक स्तर पर रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री बी. के. हांडिक) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री प्रद्युत गुहा को 24 मई, 2004 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह मंत्रालय की 28.6.2004 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करता है।

राष्ट्रपति, श्री विजेन्द्र कुमार को 27 मई, 2004 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो 6,000-10,500/- रुपये के वेतनमान में

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) के प्रथम निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह मंत्रालय की 28.6.2004 को जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करता है।

राष्ट्रपति, श्री रणबीर सिंह को 27 मई, 2004 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो 6,500-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री गोपीनाथ आर. को 5 जुलाई, 2004 के अपराह्न से, रक्षा मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो 6,500-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती  
अवर सचिव

#### (रक्षा उत्पादन विभाग)

सं. 450, दिनांक 13 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति, श्री एन. वी. पिल्लै, क. प्र. श्रेणी (अकृतियक चयन श्रेणी) की निदेशक ग्रेड-I (फ्लोटिंग) (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) के पद पर पदोन्नति होने पर उनकी नियुक्ति दिनांक 14.06.2004 (अपराह्न) से मुख्यालय गु.आ.म.नि., नई दिल्ली में निदेशक गुणता आश्वासन (भंडार) के रूप में करते हैं।

डा. परविन्दर कौर  
उप सचिव

#### (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन)

सं. 451, दिनांक 16 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्ति करते हैं :-

डा. के. वी. राघवन, पूर्ववर्ति निदेशक, आई.आई.सी.टी. को आर. ए.सी. में अध्यक्ष पद पर दिनांक 19.05.2004 (पूर्वाह्न) से पदभार संभालने एवं वेतनमान रु. 24050-650-26000 पर तीन साल के लिए संविदा आधार पर अथवा 65 साल की आयु होने पर या अगला आदेश जारी होने पर, जो भी पूर्व हो।

जे. के. खडवाल  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 452, दिनांक 11 अगस्त 2004.--भारतीय प्रशासनिक सेवा (हिमाचल प्रदेश : 69) के अधिकारी और रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय में सचिव श्री अजय प्रसाद की सेवाएं 30 जून, 2004 (अपराह्न) से नागर विमानन मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

श्रीप्रकाश  
निदेशक (स्थापना)

सं. 453, दिनांक 12 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 3180156ए अब जेसी-489469डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2004

हवलदार मंगला राम (सं. 3176732एफ अब जेसी-489470एल),  
21 फरवरी 2004

हवलदार उमेश सिंह (सं. 3173286ए अब जेसी-489471एन),  
01 मई 2004

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 3174294एल अब जेसी-489472डब्ल्यू),  
01 जून 2004

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 3175558एन अब जेसी-489473वाई),  
01 जून 2004

हवलदार विजय सिंह सैनी (सं. 3175031वाई अब जेसी-489474एफ), 01 जून 2004

हवलदार धर्मात्मा नन्द कुंवर (सं. 3175115एम अब जेसी-489475के), 01 जून 2004

हवलदार करण सिंह (सं. 3176499वाई अब जेसी-489476एम),  
06 जून 2004

हवलदार विजय पाल (सं. 3177066एन अब जेसी-489467एल),  
19 मार्च 2004

हवलदार जय सिंह (सं. 3175252एल अब जेसी-489468एन),  
01 मई 2004

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोरे बालकृष्ण बाबुराव (सं. 2779303एम अब जेसी-459312एफ), 31 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार जयवंत बालकृष्ण महाडीक (सं. 2775125एक्स अब जेसी-459313के), 01 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार पवार गजानन नथु (सं. 2782032एल अब जेसी-459314एम), 13 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार सातपुते विश्वनाथ पंडीतराव (सं. 2780914एन अब जेसी-459315पी), 12 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार दिलीप शंकरराव राठत (सं. 2777478डब्ल्यू अब जेसी-459316एक्स), 13 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार जाधव रामचंद्र श्रीरंगराव (सं. 2779135वाई अब जेसी-459317ए), 22 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार जाधव तुकाराम राजाराम (सं. 2780699एन अब जेसी-459318एच), 01 मार्च 2004

हवलदार यादव रायसिंह शामराव (सं. 2780765एल अब जेसी-459319एल), 01 मार्च 2004

हवलदार यामकर बायाजी गोवींद (सं. 2782320एक्स अब जेसी-459320ए), 01 मार्च 2004

हवलदार राम निवास (सं. 3176325वाई अब जेसी-459321एच), 13 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार आढाव ताबाजी नारायण (सं. 2782401एक्स अब जेसी-459322एल), 13 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार बराडकर हणमंत एकनाथ (सं. 2776342ए अब जेसी-459323एन), 13 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार ईश्वराराव वाई (सं. 2782762डब्ल्यू अब जेसी-459324डब्ल्यू), 12 मई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार उत्तम शामराव पाटील (सं. 2779044पी अब जेसी-459325वाई), 05 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार पाटील प्रताप रंगराव (सं. 2789701एफ अब जेसी-459326एफ), 15 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार विष्णु भगवान जाधव (सं. 2779025के अब जेसी-459327के), 22 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार सवाई चव्हाण (सं. 2779682एन अब जेसी-459328एम), 01 अप्रैल 2004

हवलदार मारुती यल्लाप्पा पाखरे (सं. 2782191एच अब जेसी-459329पी), 10 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार बालू अप्पाजी खोत (सं. 2782515एच अब जेसी-459330के), 19 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार हरीशचंद्र तुकाराम कदम (सं. 2781969के अब जेसी-459331एम), 09 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार माने मच्छींद्र दाजी (सं. 2782163डब्ल्यू अब जेसी-459332पी), 09 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

#### सिख रेजीमेन्ट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 3386560पी अब जेसी-499404डब्ल्यू), 13 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार शबाज सिंह (सं. 3385898एन अब जेसी-499405वाई), 07 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 3385939एम अब जेसी-499406एफ), 07 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार आत्मा सिंह (सं. 3386404एल अब जेसी-499407के), 04 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार बिअंत सिंह (सं. 3384879डब्ल्यू अब जेसी-499408एम), 22 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार केवल सिंह (सं. 3382660एच अब जेसी-499389एम), 28 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)

हवलदार ब्रह्म सरूप बलराम सिंह (सं. 3382023एम अब जेसी-499390एफ), 13 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार सरदुल सिंह (सं. 3384761पी अब जेसी-499391के), 02 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार गुरमैल सिंह (सं. 3384662एम अब जेसी-499392एम), 16 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार गुरतेज सिंह (सं. 3386595एल अब जेसी-499393पी), 02 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार जगरूप सिंह (सं. 3387451पी अब जेसी-499394एक्स), 16 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार निर्भय सिंह (सं. 3387665एल अब जेसी-499395ए), 16 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार गुलाब सिंह (सं. 3385409एक्स अब जेसी-499396एच), 28 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार परगट सिंह (सं. 3386492एम अब जेसी-499397एल), 05 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार बलकार सिंह (सं. 3382000एल अब जेसी-499398एन), 01 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार सविन्दर सिंह (सं. 3382557एक्स अब जेसी-499399डब्ल्यू), 30 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार गावा सिंह (सं. 3385909पी अब जेसी-499400ए), 07 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार नछतर सिंह (सं. 3385988पी अब जेसी-499401एच), 13 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 3388298डब्ल्यू अब जेसी-499402डब्ल्यू), 03 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 3384466एम अब जेसी-499403एम), 08 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2004 से दी जाती है)

1 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में (धर्म गुरु)

नायब सूबेदार दिली प्रसाद दहाल (सं. 602470एफ अब जेसी-602470एफ), 15 फरवरी 2003

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 5043083वाई अब जेसी-602549के), 10 अप्रैल 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2004)

हवलदार भक्त बहादुर पुन (सं. 5043137पी अब जेसी-602550वाई), 01 अप्रैल 2004

हवलदार बीन्दू बहादुर बुढाथोकी (सं. 5043345के अब जेसी-602551एफ), 05 मई 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2004)

11 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजा राई (सं. 9417361डब्ल्यू अब जेसी-634541एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार रबिंद्रा कुमार राई (सं. 9417063ए अब जेसी-634542एन), 01 अप्रैल 2004

हवलदार याम बहादुर मुखिया (सं. 9416357एफ अब जेसी-634543डब्ल्यू), 05 अप्रैल 2004@

@(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004)

हवलदार टीका तामंग (सं. 9419222एल अब जेसी-634544वाई), 05 अप्रैल 2004@

@(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004)

हवलदार तुल बहादुर लिम्बु (सं. 9417336एक्स अब जेसी-634545एफ), 16 अप्रैल 2004\$

\$(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004)

हवलदार मैता राज लिम्बु (सं. 9416659एन अब जेसी-634546के), 13 अप्रैल 2004%

%(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

हवलदार रन बहादुर लिम्बु (सं. 9417557के अब जेसी-634547एम), 24 फरवरी 2004&

&(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

हवलदार अमन लामा (सं. 9416285एच अब जेसी-634548पी), 30 अप्रैल 2004@

@(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004)

हवलदार बेनु प्रसाद सुब्बा (सं. 9415784एल अब जेसी-634549एक्स), 10 मई 2004+

+(वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004)

हवलदार सुरेश सुब्बा (सं. 9417488वाई अब जेसी-634550एम), 29 मई 2004\*\*

\*\* (वेतन भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2004)

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

(नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिये)

हवलदार मौहम्मद अफराज (सं. 9085311डब्ल्यू अब जेसी-593210एम), 27 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 9087870एक्स अब जेसी-593211पी), 27 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मौहम्मद अजगर (सं. 9086946एफ अब जेसी-593212एक्स), 14 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बिहारी लाल (सं. 9086651एल अब जेसी-593213ए), 05 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार पर्वत सिंह (सं. 9087787एफ अब जेसी-593214एच), 05 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गुलाम नबी मीर (सं. 9085918एच अब जेसी-593215एल), 27 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अब्दुल जाबर (सं. 9085947एक्स अब जेसी-593216एन), 31 मई 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मौहम्मद रफीक शाह (सं. 9085156ए अब जेसी-593217डब्ल्यू), 02 मई 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 05 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार चमेल सिंह (सं. 9083349एफ अब जेसी-593203डब्ल्यू), 03 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार औम प्रकाश (सं. 9086191ए अब जेसी-593204वाई), 27 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जगदीश राज (सं. 9086217वाई अब जेसी-593205एफ), 05 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार डिप्टी लाल (सं. 9085203एम अब जेसी-593206के), 16 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बलकार सिंह (सं. 9086354एक्स अब जेसी-593207एम), 16 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार चन्द्र पान (सं. 9087128एम अब जेसी-593208पी),  
29 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार आंचल सिंह (सं. 9086241पी अब जेसी-593209एक्स),  
21 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शंकर दास (सं. 9084196पी अब जेसी-593195एच),  
03 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार खलील अहमद (सं. 9084796एक्स अब जेसी-593196एल), 03 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार हरमिंद्र पाल (सं. 9086304एम अब जेसी-593197एन),  
16 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सूरम सिंह (सं. 9086127एक्स अब जेसी-593198डब्ल्यू),  
22 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अब्दुल रशीद तांतरे (सं. 9088273डब्ल्यू अब जेसी-593199वाई), 22 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अशोक सिंह (सं. 9087058एक्स अब जेसी-593200एच), 22 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार परशोतम कुमार सैनी (सं. 9088491पी अब जेसी-593201एल), 22 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार चमेल सिंह (सं. 9084901एच अब जेसी-593202एन),  
24 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

मद्रास रेजीमेंट

नायब सबेदार के रैंक में

हवलदार एम अधिस्याराज (सं. 2591224ए अब जेसी-439395डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार कुमार एल बी (सं. 2588976वाई अब जेसी-439396पी), 20 दिसम्बर 2003

हवलदार कांपुल्ला नागेश्वर राव (सं. 2590334एच अब जेसी-439384के), 01 मार्च 2004

हवलदार ऐ मूर्ति (सं. 2591215वाई अब जेसी-439394एन), 01 मार्च 2004

हवलदार शम्भुलिंग हडपाड (सं. 2585819एफ अब जेसी-439390एक्स), 04 मार्च 2004

हवलदार पी परशु रामन (सं. 2585719डब्ल्यू अब जेसी-439396वाई), 01 अप्रैल 2004

हवलदार वी कन्नन (सं. 2590509ए अब जेसी-439379वाई),  
05 अप्रैल 2004\*

\*(नायब सूबेदार रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार मोहनन् पिल्ले पी डी (सं. 2587630एच अब जेसी-439343ए), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार आर मंगलम् (सं. 2583091ए अब जेसी-439385एम),  
01 दिसम्बर 2003

हवलदार डेविड विगस (सं. 2589564के अब जेसी-439387एक्स),  
31 दिसम्बर 2003

हवलदार जी शक्ति श्रवणन् (सं. 2589797एल अब जेसी-439388ए), 31 दिसम्बर 2003

हवलदार एम गंगाधरन (सं. 2587977पी अब जेसी-439381डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2004

हवलदार जेट्टी पेडा वेंकटेश्वरलू (सं. 2589939एक्स अब जेसी-439383एफ), 03 फरवरी 2004

हवलदार पी रमेश (सं. 2591208एच अब जेसी-439392एच),  
12 मार्च 2004

कुमऊँ रेजीमेंट

नायब सबेदार के पद में

सी.एच.एम. जीवन सिंह मुशुनी (सं. 4187322ए अब जेसी-539390एम), 08 दिसम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार शंकर सिंह चुफाल (सं. 4177360के अब जेसी-539391पी), 28 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार देवकी नन्दन (सं. 4173545एन अब जेसी-539375एक्स),  
22 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार याबेन्दर सिंह (सं. 4177942के अब जेसी-539404एफ),  
29 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

हवलदार प्रेम चन्द (सं. 4174446एक्स अब जेसी-539376ए),  
14 सितम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार कूवर सिंह (सं. 4176782वाई अब जेसी-539377एच),  
14 सितम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार भीम सिंह (सं. 4172923पी अब जेसी-539378एल),  
15 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार सुरेश चन्द्र पुनेरा, एस एम (सं. 4178938एन अब  
जेसी-539405के), 20 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

हवलदार राधे श्याम (सं. 4174212एन अब जेसी-539410पी),  
20 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार रंग लाल (सं. 4174242एल अब जेसी-539352एक्स),  
15 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार करम चन्द (सं. 4175908एल अब जेसी-539403वाई),  
15 नवम्बर 2003/14 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 14 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4175019एन अब जेसी-539406एम),  
06 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

हवलदार दरवान सिंह (सं. 4175836एन अब जेसी-539407पी),  
06 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

हवलदार गोपाल दत्ता (सं. 4172204डब्ल्यू अब जेसी-539393ए),  
30 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार पिताम्बर दत्त पाण्डे (सं. 4177648के अब  
जेसी-539394एच), 08 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार लाल सिंह (सं. 4179264एन अब जेसी-539395एल),  
01 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 4179911एच अब जेसी-539408एक्स),  
22 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

सी.क्यू.एम.एच. मोहन सिंह (सं. 4174616डब्ल्यू अब  
जेसी-539396एन), 24 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

सी.क्यू.एम.एच. बहम प्रकाश (सं. 4174780वाई अब  
जेसी-539389एक्स), 09 अक्टूबर 2003/26 अगस्त 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 26 अगस्त 2003 से दी गई।)

हवलदार उमा शंकर (सं. 4176487ए अब जेसी-539402डब्ल्यू),  
15 नवम्बर 2003/13 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 13 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार लक्ष्मी चन्द यादव (सं. 4177697एम अब  
जेसी-539397डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

सी.क्यू.एम.एच. ओम प्रकाश (सं. 4174405एन अब  
जेसी-539379एन), 16 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

सी.एच.एम. पूरन सिंह (सं. 4172819एफ अब जेसी-539383डब्ल्यू), 24 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

हवलदार चन्द्र सेखर जोशी (सं. 4173396एल अब जेसी-539409ए), 02 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

हवलदार राजेन्द्र सिंह जलाल (सं. 4183695एक्स अब जेसी-539371एफ), 01 अगस्त 2003

सी.एच.एम. ओम प्रकाश यादव (सं. 4174031एच अब जेसी-539373एम), 27 सितम्बर 2003/29 अगस्त 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 29 अगस्त 2003 से दी गई।)

हवलदार किशन सिंह (सं. 4174273एल अब जेसी-539380एच), 01 सितम्बर 2003

सी.एच.एम. लक्ष्मन सिंह (सं. 4174262वाई अब जेसी-539381एल), 27 सितम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार जीवन सिंह पवार (सं. 4178616एन अब जेसी-539384वाई), 31 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

हवलदार शम्भू यादव (सं. 4174048डब्ल्यू अब जेसी-539411एक्स), 22 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार बलवान सिंह (सं. 4174070एफ अब जेसी-539412ए), 22 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार चन्दन सिंह (सं. 4175406एच अब जेसी-539413एच), 22 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी गई।)

सी.एच.एम. दीवान सिंह (सं. 4177456एम अब जेसी-539370वाई), 06 अगस्त 2003/01 जुलाई 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2003 से दी गई।)

सी.एच.एम. राम सिंह (सं. 4177531एल अब जेसी-539374पी), 03 अक्टूबर 2003/29 अगस्त 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 29 अगस्त 2003 से दी गई।)

हवलदार भोला दत्त (सं. 4177826एफ अब जेसी-539398वाई), 03 दिसम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार भगत सिंह (सं. 4177879ए अब जेसी-539382एन), 12 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

आर.पी.एच.एम. रतन सिंह देब (सं. 4174421एल अब जेसी-539369के), 16 जुलाई 2003/01 अप्रैल 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2003 से दी गई।)

हवलदार रामेश्वर दयाल यादव (सं. 4172172वाई अब जेसी-539372के), 13 अक्टूबर 2003/01 अगस्त 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2003 से दी गई।)

हवलदार चन्द्र सिंह रिथाल (सं. 4172178ए अब जेसी-539399एफ), 06 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

सी.एच.एम. सत्यवीर सिंह (सं. 4173423के अब जेसी-539414एल), 01 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी गई।)

सी.क्यू.एम.एच. पुष्कर लाल (सं. 4176894एच अब जेसी-539400एल), 11 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 4179468ए अब जेसी-539401एन), 24 नवम्बर 2003/07 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 07 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार रमेश दत्त भट्ट (सं. 4176552पी अब जेसी-539415एन), 24 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी गई।)



## नागा रेजीमेंट

हवलदार किखोहो सेमा (सं. 14702884वाई अब जेसी-590138डब्ल्यू), 29 सितम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

हवलदार गम्भीर कुमार प्रधान (सं. 14700846के अब जेसी-590135एच), 28 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई।)

सी.क्यू.एम.एच. प्रताप सिंह (सं. 4173129के अब जेसी-590136एल), 26 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

सी.एच.एम. नन्दन सिंह (सं. 4173703एक्स अब जेसी-590137एन), 26 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई।)

## डोगरा रेजीमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करनैल सिंह (सं. 3979534एच अब जेसी-519851के), 01 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2003 से।)

हवलदार वीर सिंह (सं. 3984713एम अब जेसी-519852एम), 10 मार्च 2004

हवलदार देव राज (सं. 3985621एम अब जेसी-519853पी), 12 मार्च 2004

हवलदार राम लाल (सं. 3981506पी अब जेसी-519854एक्स), 16 मार्च 2004

हवलदार मोहिंद्र सिंह (सं. 3982102वाई अब जेसी-519855ए), 23 मार्च 2004

हवलदार दिलवाग सिंह (सं. 3981570एम अब जेसी-519856एच), 26 मार्च 2004

हवलदार सुदागर राम (सं. 3980963डब्ल्यू अब जेसी-519857एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार रघवीर सिंह (सं. 3981641एच अब जेसी-519858एन), 06 अप्रैल 2004

हवलदार कृष्ण चन्द (सं. 3980445डब्ल्यू अब जेसी-519859डब्ल्यू), 01 मई 2004

## नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक स्वर्न कुमार बल (सं. 3382284ए अब जेसी-519860एल), 01 अप्रैल 2004

## असम रेजीमेंट

## नायब सूबेदार के पद में

हवलदार गुंजासुवान (सं. 4353735एच अब जेसी-548963एम), 24 अप्रैल 2004/02 जनवरी 2004

हवलदार जय कुमार सिन्हा (सं. 10244606एल अब जेसी-548965एक्स), 18 मार्च 2004/01 फरवरी 2004

हवलदार सी खोनबेनधुंग लोथा (सं. 4353549एम अब जेसी-548959के), 25 मार्च 2004/01 नवम्बर 2003

हवलदार मन बहादुर थापा (सं. 4353591एल अब जेसी-548960वाई), 23 मार्च 2004/01 दिसम्बर 2003

हवलदार नीमा दोनदुआ (सं. 4354034एच अब जेसी-548961एफ), 23 मार्च 2004/01 मार्च 2004

हवलदार उपेन कुमार बोरो (सं. 4352723एफ अब जेसी-548993के), 31 मार्च 2004

हवलदार बरोजन चेतिया (सं. 4353407पी अब जेसी-548994एम), 31 मार्च 2004

हवलदार धर्मेश्वर बोराह (सं. 4353490एक्स अब जेसी-548970एच), 17 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004

हवलदार रूपचन्द राय (सं. 4353306एफ अब जेसी-548980एम), 15 अप्रैल 2004/01 जनवरी 2004

हवलदार उपेन बोराह (सं. 4358874डब्ल्यू अब जेसी-548986एन), 06 मई 2004/01 अप्रैल 2004

हवलदार बरूण चिसीम (सं. 4355414के अब जेसी-548996एक्स), 21 मई 2004/01 अप्रैल 2004

हवलदार छबिलाल थापा (सं. 4355813एन अब जेसी-543987डब्ल्यू), 06 मई 2004/01 अप्रैल 2004

हवलदार धोकचम कुमार (सं. 4358328के अब जेसी-548981पी), 14 मई 2004/01 जनवरी 2004

## नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार लिपिक अजित सिंह (सं. 4357833ए अब जेसी-548989एफ), 05 मई 2004/01 अप्रैल 2004

हवलदार लिपिक रवि प्रकाश (सं. 4357826के अब जेसी-548988वाई), 06 मई 2004/01 अप्रैल 2004

## बिहार रेजीमेंट

## नायब सूबेदार (जी.डी./क्लर्क) के रैंक में

हवलदार श्रीराम हंसदा (सं. 4264837के अब जेसी-559263वाई), 01 मार्च 2004/01 सितम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार लिबिन एक्का (सं. 4265833ए अब जेसी-559264एफ),  
01 मार्च 2004/29 सितम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 29 सितम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार ब्रह्मदेव प्रसाद (सं. 4263273ए अब जेसी-559265के),  
07 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार सुकांत कुमार बेहेरा (सं. 8031138एन अब  
जेसी-559266एम), 25 मार्च 2004/01 नवम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार चरवा मिंज (सं. 4263103डब्ल्यू अब जेसी-559267पी),  
28 मार्च 2004/01 दिसम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार फुदन माझी (सं. 4261234एच अब जेसी-559268एक्स),  
10 अप्रैल 2004/04 दिसम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 04 दिसम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार प्रदीप कुमार झा (सं. 4261419के अब जेसी-559269ए),  
28 मार्च 2004/07 दिसम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 07 दिसम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार महेश राय (सं. 4259960वाई अब जेसी-559270पी),  
10 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार सुधीर टोप्पो (सं. 4261526एल अब जेसी-559271एक्स),  
13 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार शिवजी सिंह (सं. 4262558ए अब जेसी-559272ए),  
20 मार्च 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार बेनुधर साहू (सं. 4260786के अब जेसी-559273एच),  
01 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार (लिपिक) रतनाकर बारीक (सं. 4264167एन अब  
जेसी-559274एल), 01 मार्च 2004

हवलदार सिलवानेस बिलुंग (सं. 4258941एफ अब  
जेसी-559276डब्ल्यू), 18 मार्च 2004/19 सितम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 19 सितम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार श्रीराम सेवक (सं. 4259048एम अब जेसी-559277वाई),  
18 मार्च 2004/29 सितम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 29 सितम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार सरम चन्द्र स्वायम् (सं. 4262148के अब  
जेसी-559278एफ), 18 मार्च 2004/01 नवम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार अलबिनुस बरवा (सं. 4261888एम अब  
जेसी-559279के), 21 फरवरी 2004/15 नवम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 15 नवम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार राम गति महतो (सं. 4262438एफ अब  
जेसी-559280वाई), 29 अप्रैल 2004/07 दिसम्बर 2003 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 07 दिसम्बर 2003 से दी जाती है।)

हवलदार चित्रांजन प्रसाद सिंह (सं. 4261039एल अब  
जेसी-559281एफ), 15 अप्रैल 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार राम लाल महतो (सं. 4268281डब्ल्यू अब  
जेसी-559282के), 25 मार्च 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार अशोक कुमार मिश्रा (सं. 4259606के अब  
जेसी-559283एम), 10 मार्च 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार रबीन्द्र नाथ पंडा (सं. 4262332पी अब  
जेसी-559284पी), 18 मार्च 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार कुरील कंडुलना (सं. 4263337ए अब  
जेसी-559285एक्स), 15 अप्रैल 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार परमेश्वर नायक (सं. 4263216वाई अब जेसी-559286ए), 18 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार राम इकबाल शर्मा (सं. 4259315के अब जेसी-559287एच), 01 अप्रैल 2004/15 फरवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 फरवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार उपेन्द्र चन्द्र सरकार (सं. 4261401ए अब जेसी-559288एल), 01 अप्रैल 2004/15 फरवरी 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 फरवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार प्रदीप्त कुमार परीदा (सं. 4263546एक्स अब जेसी-559289एन), 01 मई 2004/01 मार्च 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2004 से दी जाती है।)

हवलदार जॉन तिग्गा (सं. 4260653एन अब जेसी-559290एच), 14 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

हवलदार बृंदाबन बाग (सं. 4261970एफ अब जेसी-559291एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार राम पवित्रा राय (सं. 4258495एल अब जेसी-559292एन), 02 मई 2004/21 अप्रैल 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 21 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

हवलदार राम चन्द्र मुकुट (सं. 4261977एल अब जेसी-559293डब्ल्यू), 15 मई 2004/28 अप्रैल 2004 (ज्येष्ठता)\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 28 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

गडवाल राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हिमन्त सिंह (सं. 4062003पी अब जेसी-529597वाई), 18 अप्रैल 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं. 4061646ए अब जेसी-529598एफ), 24 जनवरी 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 4060976एम अब जेसी-529599के), 24 फरवरी 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार सतेश्वर प्रसाद (सं. 4060998एल अब जेसी-529600एन), 26 फरवरी 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार महेन्द्र प्रसाद (सं. 4062160एफ अब जेसी-529601डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

हवलदार बिजय सिंह (सं. 4062531वाई अब जेसी-529602वाई), 01 मार्च 2004

हवलदार रमेश सिंह चौधरी (सं. 4063402एल अब जेसी-529603एफ), 01 मार्च 2004

हवलदार बिज मोहन सिंह (सं. 4062195एक्स अब जेसी-529604के), 03 मार्च 2004

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 4062332एल अब जेसी-529606पी), 01 अप्रैल 2004

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4062843एक्स अब जेसी-529607एक्स), 01 अप्रैल 2004

हवलदार धनी लाल (सं. 4062821डब्ल्यू अब जेसी-529608ए), 01 अप्रैल 2004

हवलदार सुदर्शन नेगी (सं. 4064090एम अब जेसी-529609एच), 01 अप्रैल 2004

हवलदार चन्दन सिंह (सं. 4064666वाई अब जेसी-529610एक्स), 01 अप्रैल 2004\*

हवलदार मातबर सिंह (सं. 4064356एम अब जेसी-529611ए), 01 अप्रैल 2004

हवलदार हर्ष सिंह (सं. 4064369एल अब जेसी-529612एच), 01 अप्रैल 2004

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 4062470एम अब जेसी-529613एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार भाष्कर सिंह (सं. 4065207एच अब जेसी-529614एन), 01 अप्रैल 2004

हवलदार राम स्वरूप (सं. 4064668के अब जेसी-529615डब्ल्यू), 06 अप्रैल 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अप्रैल 2004 से दी जाती है।)

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) संतोष कुमार (सं. 4063393एम अब जेसी-529605एम), 01 अप्रैल 2004

हवलदार (लिपिक) तीरथ सिंह (सं. 4060447ए अब जेसी-529616वाई), 01 मई 2004

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मदन सिंह (सं. 4065094पी अब जेसी-529579डब्ल्यू), 26 मार्च 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार रेवत सिंह (सं. 4063041एक्स अब जेसी-529580एल), 05 मार्च 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है।)

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 4065503एक्स अब जेसी-529581एन), 01 फरवरी 2004

हवलदार खुशाल सिंह (सं. 4063728एफ अब जेसी-529583वाई), 01 मार्च 2004

हवलदार महिपाल सिंह (सं. 4063975पी अब जेसी-529584एफ), 01 मार्च 2004

हवलदार मेहरबान सिंह (सं. 4062191एफ अब जेसी-529585के), 01 मार्च 2004

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 4064339एन अब जेसी-529586एम), 01 मार्च 2004

हवलदार वैसाख सिंह, सेना मेडल (सं. 4063409पी अब जेसी-529587पी), 01 मार्च 2004

हवलदार गजे सिंह (सं. 4061735वाई अब जेसी-529588एक्स), 07 मार्च 2004

हवलदार राकेश चन्द (सं. 4062588एन अब जेसी-529589ए), 18 मार्च 2004

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 4073736एन अब जेसी-529592ए), 01 अप्रैल 2004

हवलदार सुशील प्रकाश (सं. 4061840पी अब जेसी-529593एच), 01 अप्रैल 2004

हवलदार भागचन्द सिंह (सं. 4062158के अब जेसी-529594एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार सुलतान सिंह (सं. 4062718एल अब जेसी-529595एन), 01 अप्रैल 2004

हवलदार चमन सिंह (सं. 4062314एच अब जेसी-529596डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) ओम प्रकाश बर्थवाल (सं. 4061591एफ अब जेसी-529582डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

हवलदार (लिपिक) ताजवर सिंह (सं. 4061596ए अब जेसी-529590पी), 01 अप्रैल 2004

हवलदार (लिपिक) दलवीर सिंह (सं. 4062486एक्स अब जेसी-529591एक्स), 01 अप्रैल 2004

दिवाकर  
अवर सचिव

सं० 454, दिनांक 17 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं:--

## स्थायी कमीशन

मेजर जनरल से ले. जनरल के पद पर

बी सदानन्द, एवीएसएम, वीएसएम (एम आर-02051एम)--29 मार्च 2004 वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक वरीयता 01.02.2004 से दी जाती है।

ए के बख्शी, वीएसएम (एम आर-02745एम)--29 मार्च 2004 वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक वरीयता 02.02.2004 से दी जाती है।

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से सर्जन रियर एडमिरल (व समकक्ष)

वी के सिंह, (एम आर-2277एक्स अब जेसी-75848एफ), 05 अप्रैल 2004 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02.07.2003 से दी जाती है।

ले. कर्नल से कर्नल के पद पर

एम आर शर्मा, (एम आर-4502ए)--14 अगस्त 2003 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.04.2003 से दी जाती है।

एम श्रीवास्तवा  
ब्रिगेडियर

उप म.नि.स.से.चि.से. (कार्मिक)

सं. 455, दिनांक 16 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में

आई सी-34012 एक्स पी अदरियनवालिआ, ए सी--01 दिसम्बर 2000

आई सी-34045 यशपाल सिंह, इन्फैन्ट्री--01 दिसम्बर 2000

आई सी-34098 एच एस सचदेव, इन्फैन्ट्री--01 दिसम्बर 2000

आई सी-34190 के सी ठाकुर, इन्फैन्ट्री--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-34228 बी जे चेरियन, ए ओ सी--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-34247 एन के दत्ता, इन्फैन्ट्री--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-35793 ए के महाजन, ई एम ई--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-35807 एम सिंह, सिग्नल--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-35808 ए कुमार, इन्जीनियर--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-35825 बी सिंह, इन्जीनियर--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-35827 एस वाई मेहता, ई एम ई--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-35838 एन के शर्मा, ई एम ई--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-35873 जे के टी वरके, ई एम ई--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-32302 जे एस पुरी, ए ओ सी--01 नवम्बर 1994  
 आई सी-36041 प्रभात प्रकाश, इन्फैन्ट्री--01 जनवरी 1999  
 आई सी-31764 बी एस पन्तु, इन्फैन्ट्री--01 दिसम्बर 2000  
 आई सी-35797 कृष्णा स्वामी, इन्जीनियर--01 दिसम्बर 2000  
 एस एल-02326 सी के आर कृष्णन--01 दिसम्बर 2000  
 मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)  
 आई सी-37834 एस पी सिंह, ए एस सी--12 नवम्बर 2001  
 आई सी-39635 ए आर थपन, आर्टी--13 जून 2001  
 आई सी-39740 ए सिंह, आर्टी--13 जून 2001  
 आई सी-39733 एस वाई आगा, आर्टी--13 जून 2001  
 आई सी-39780 जे जार्ज, इन्फैन्ट्री--29 अप्रैल 2001  
 आई सी-41032 एस के तोमर, ई एम ई--24 दिसम्बर 2002  
 आई सी-41263 चन्देर पुरी, ई एम ई--18 जून 2003  
 आई सी-41739 ए आर प्रकाश, सिग्नलस--17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-45240 राकेश मल्लिक, इन्जीनियर्स--25 अप्रैल 2004  
 आई सी-41540 एन सुब्रमनीअन, ए डी ए--17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-45030 ए सहाय, ए डी ए--26 अप्रैल 2003  
 आई सी-45284 आर सी शर्मा, इन्फैन्ट्री--25 अप्रैल 2004  
 आई सी-45270 जी एस राठौर, ए सी--25 अप्रैल 2004  
 आई सी-45237 जसवीर सिंह, आर्टी--25 अप्रैल 2004  
 आई सी-45208 राधा कृष्णन, ई एम ई--25 अप्रैल 2004  
 आई सी-45259 पी के श्रीवास्तावा, आर्टी--25 अप्रैल 2004

शशि शंकर सिन्हा

उप निदेशक

डीएएमएस-8

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 456, दिनांक 16 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

श्री आर. एन. कुलकर्णी, वैज्ञानिक डी डी.ओ.एल, डी.आर.डी.ओ. हैडक्वार्टर में वैज्ञानिक ई के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 09 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 14300-400-18300 पर।

एच.इ.एम.आर.एल., पुणे के श्री के. के. चक्रवर्ती, वरिष्ठ भण्डार अधिकारी ग्रेड-II को उसी स्थापना में वरिष्ठ भण्डार अधिकारी ग्रेड-I के रूप में 05 जनवरी 2004 से वेतनमान रु. 10000-15200 पर।

श्रीमती सरोज सरिन, निजी सहायक सी को निजी सचिव ए के रूप में एस.एस.पी.एल, दिल्ली में 01.09.2003 (पूर्वाह्न) से रु. 6500-200-10500 वेतनमान पर।

इनमास, दिल्ली के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से।

श्री बी.एस. द्वारकानाथ (वैज्ञानिक ई), वैज्ञानिक एफ-- रु. 16400-450-20000

श्री सुशील चन्दा (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई-- रु. 14300-400-18300

श्री प्रदीप कुमार चुग (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई-- रु. 14300-400-18300

श्री रजनीश शर्मा (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई-- रु. 14300-400-18300

श्री आर चन्दा (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई-- रु. 14300-400-18300

श्री एन. के. चौधरी (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई-- रु. 14300-400-18300

श्री राजीव वर्सने (वैज्ञानिक सी), वैज्ञानिक डी-- रु. 12000-375-16500

श्री एस. संधील कुमारन (वैज्ञानिक सी), वैज्ञानिक डी-- रु. 12000-375-16500

डी.आर.डी.ओ. हैडक्वार्टर के निम्न वैज्ञानिकों को उनके अगले पदनाम पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरण के अनुसार दिनांक 01 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से।

श्री वी.एन. कपूर डी.ओ.एल (वैज्ञानिक एफ), वैज्ञानिक जी-- रु. 13400-500-22400

श्री आर.आर. भटनागर डी.ओ.एल (वैज्ञानिक ई), वैज्ञानिक एफ-- रु. 16400-450-20000

डा. एस. वतशल ई.आर.एण्ड आई.पी.आर. (वैज्ञानिक एफ), वैज्ञानिक जी-- रु. 18400-500-22400

श्रीमती अलका सूरी डी.बी.एफ.ए. (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई--  
रु. 14300-400-18300

श्री जगदीप डी.एम.एम (वैज्ञानिक सी), वैज्ञानिक डी--  
रु. 12000-375-16500

श्री जितेन्द्र चुग डी.सी.एस. (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई--  
रु. 14300-400-18300

श्री सुनील शर्मा सी.सी.आर.एण्ड डी (टी.एम.एस.) (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई--रु. 14300-400-18300

डा. के. एन. खत्री डी.ओ.ए. (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई--  
रु. 14300-400-18300

श्री गोपाल भूषण एस.एटू आर.एम. (वैज्ञानिक डी), वैज्ञानिक ई--रु. 14300-400-18300

डा. देवेन्द्र सिंह डी.ओ.एम. (वैज्ञानिक ई), वैज्ञानिक एफ--  
रु. 16400-450-20000

श्री गौतम ईच डी.ओ.एम. (वैज्ञानिक ई), वैज्ञानिक एफ--  
रु. 16400-450-20000

डा. ए.के. त्रिपाठी डी.ओ.एम. (वैज्ञानिक ई), वैज्ञानिक एफ--  
रु. 16400-450-20000

श्री अरूण सेठ एस.ए. टू सी.एन.एस. (वैज्ञानिक ई), वैज्ञानिक एफ--रु. 16400-450-20000

डा. के. एस. मंजा डी.ओ.पी. (वैज्ञानिक एफ), वैज्ञानिक जी--  
रु. 18400-500-22400

जे के खडवाल  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

वायु सेना

सं. 457, दिनांक 17 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां मूल रैंक में करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

विमानिक इन्जीनियरिंग (मैकेनिकल्स) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के रैंक में

राजदीप सिंह (26271), एस के धामिन (25958), एस ए आर अन्टोनी (25950), एम डी सलाम (25945), सुधीर पंडिता (25956), सिद्धार्थ कुमार (25947), ए वासुदेव (25940), डिविन आर (25949), उनीकृष्णन (25965), वी दत्ता (25966), अनिष कुमार जे (25954), डी डी भण्डे (25960), वाई एस मेहरा (25961), डी एस एन मुर्ती (25939), ए बनर्जी (25937), पी पी प्रसान्त (25963), अब्राहम अलेक्स (25934), उमेश पुजारी (25964), बिसवाजीत सरमाह (25959), शर्मा पी (25943), दयुलुरी एल किरन (25955), के डी कोचर (25933) दिनांक 01 जनवरी 2003 से। ए सिंह (26272), रितेन पटेल

(25951), अनिरुद्ध नैयन (25942) दिनांक 06 जनवरी 2003 से।

वैमानिक इन्जीनियरिंग (इलैक्ट्रिकल्स) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के रैंक में

कार्तिकेयन (26003), डी सिंह (25984), एम ए दुबे (26004), शैलेस कुमार (25983), डी आर यादव (26276), एच एस चौहान (25994), विभु शर्मा (25978), सी एस हिरेमठ (25992), जी ईलनगोविल (25993), अनुज तिवारी (25986), अजली जुई (25987), सुधाकरण एस (25973), राकेश कुमार (25981), एस एस पाण्डा (25989), एम एस प्रियांवी (25988), आलोक कुमार (25996), पी के मिश्रा (25970), बी मंगेश कुमार (26005), सतपाल सिंह (25972) दिनांक 01 जनवरी 2003। एम के लाब्स (25977), नितिन काण्डे (25982), जसताज सिंह (26007), सन्दीप कुमार (26000), वी मनोज कुमार (25971) दिनांक 06 जनवरी 2003 से।

वैमानिक इन्जीनियरिंग (मैकेनिकल्स) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के रैंक में

मनीष अग्रवाल (25757), पी के मित्तल (26077), आशेष कुमार वजानी (25738), आर पी शर्मा (25751), सिंह अमित (25736), बिपिन वी पाटिल (25735), एम एस स्वामीनाथन (25733), वी चोपड़ा (25748), डी जी पाटिल (25747), टी डी सिंह (25760), हर्षदीप सिंह (25756), मनीष शास्त्री (25743), महेश आर बैलकंवर (25726), घुमन जी एस (25761), राजेश गुप्ता (25742), संजीव कुमार (25754), किरन अरूण कोफटे (25759), पी अशोक कुमार (25729), पंकज कुमार (25750), वी एम शिवानन्द (25737), वी आनन्धन (25741), शितेश के श्रीवास्तव (25746), शर्मा ए के (25744), राजेश वशिष्ठ (25755), एस डी हरीष चन्द्रा (25732), प्रवीण कुमार (25730), पारीक आर (25723), एम जीवन रेड्डी (25734), नवेन्दु वत्स (25725), प्रशान्त बेहरा (25727), अमित गर्ग (25731), अश्विनी कुमार सिंह (25728), अरूप कुमार अन्तामन (25740), विनस कुमार शर्मा (25724), हरसिमरन सिंह (25745) दिनांक 24 जुलाई 2002 से। शर्मा एम के (25758), सुमीत सोहल (25749), भारद्वाज वी (25752), गोतम नारजरी (25739), शंशाक शेखर (25753) दिनांक 06 जनवरी 2003 से।

वैमानिक इन्जीनियरिंग (इलैक्ट्रिकल्स) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के रैंक में

अजिल बजाज (25766), शाह ए आई ए शाह (25960), आशीष शर्मा (25778), ए राजेश (25786), रेशमा बोहरा (25774), कुलदीप सिंह टिक्कु (25762), प्रेम बहादुर (25787), अखिलेश के मिश्रा (25773), खुटेल पी एस (25771), अभिषेक गोविल (25765), कन्हैया लाल तोमर (25768), अरविन्द रावत (25779), सनल जी (25783), आर पदमा कुमार (25784), एन कृष्णा किशोर (25777), यु कुमार (25782), जगविन्दर

पाल सिंह (25764), अरूण कुमार मेहन्दीरता (25763), आर एस साम्बयाल (25495), विवेक नन्द मिश्रा (25776), टोरम देवकान्त सिंह (25772), उपेन्द्र चतुर्वेदी (25770), टोशिओ किबा (25781), गिरीष कुमार बी एस (25788) दिनांक 24 जुलाई 2002 से। शाजी सी थोमस (25767), उपाध्याय एस के (25775), फिरोज बी (25780) दिनांक 06 जनवरी 2003 से।

#### उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के रैंक में

पी अरूण कुमार (25838), हुवय उपाध्याय (25850), अखिलेश सिंह एफ (25868) दिनांक 18 दिसम्बर 2003 से। धर्मराज हरिहरन (25856) 18 दिसम्बर 2003 से अनुराग खुराना (25819), प्रशांत ग्रोवर (25820), हरप्रीत सिंह लूथरा (25821), गिरीश दंतले (25822), एल्विस किलन्टन रोडिगीस (25823), तरूण गुप्ता (25824), मन्मथ श्रीकांत (25825), कर्म हिरोजित सिंह (25826), सुभाष सिंह राव (25827), प्रदीप भोला (25828), आलोक शर्मा (25829), देवर्षि बागची (25832), नरेन्द्र सिंह पनवर (25833), अश्वनभ नाथ (25834), घीमोन जोसेफ (25835), अरविन्द कुमार (25836), रितम कुमार (25837), तुषार श्रीधर वैध (25839), पी शिवराम (25840), प्रेम आनन्द (25842), अभिजीत प्रकाश कादव (25843), विक्रांत यादव (25844), सचिन आनन्द गाडरे (25846), राकेश कुमार (25847), प्रशांत सूर्यवंशी (25848), साई प्रसाद डोरा (25849), दीपेश कुमार (25853), सचिन गुप्ता (25854), समीर मेहरा (25855), एम परगुणन (25857), ए विजय कुमार (25858), रितिन जैन (25859), प्रशांत सीताराम चवाण (25861), आनन्द अरूण निसाल (25862), आशीष वी दनके (25863), समीर शर्मा (25864), विक्रमजीत सिंह ग्रेवाल (25865), जुबेर एबी शेख (25866), राजेश कुमार अलवादी (25867), अमित शर्मा (25869), सुनिल कुमार देसवाल (25870), तरूण कुमार चौधरी (25871), विनीत कुमार जोशी (25872), गौतम नारायण (25873), के सोमनाथन (25874), विनोय कूटप्पन (25875), अर्जुन विनोबा (25876), शिवंग कुमार (25877) 18 दिसम्बर 2003 से।

#### उड़ान (नेविगेशन) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के रैंक में

अपराजित विष्ट (25878), वेबस्टर सिल्वन वी ए एस (25879), आर के रेड्डी (25880), ए वेंकट रेड्डी (25881), राहुल चन्द (25882), कुलदीप सिंह असवाल (25883), वी एस शिवतारे (25885), एस एम आजाद (25886) 18 दिसम्बर 2003 से।

एस श्रीवास्तव  
स्कवाइन लीडर  
डी डी पी ओ 3 (डी)

सं. 458, दिनांक 11 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ आधार पर) श्री अमृत लाल की अधिवार्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 अप्रैल 2004 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त करते हैं।

वी. सरस्वती  
अवर सचिव

सं. 459, दिनांक 11 अगस्त 2004.--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के डेस्क अधिकारी श्री डी. पी. सिंघल की अधिवार्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून, 2004 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री मधुसूदन काला की अधिवार्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून, 2004 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस. पी. त्रिपाठी  
अवर सचिव

#### अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 460, दिनांक 11 अगस्त 2004.--अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने अर्थात् 60 वर्ष के होने पर अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी श्री पी जे सोनी 30 जून 2004 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। (अपराह्न 01 जुलाई 2004 से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित कर दिए गए हैं)।

सन्तोष दासगुप्ता  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 461, दिनांक 16 अगस्त 2004.--सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त होने पर डा. जे. पी. अग्रवाल, वैज्ञानिक जी, डी आर डी ओ हैडक्वार्टर में दिनांक 30 जून 2004 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हुये तथा दिनांक 01 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित कर दिए गये।

सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त होने पर श्रीमती नीला पार्थासारथी, वैज्ञानिक डी, डी आर डी ओ हैडक्वार्टर में दिनांक 30 जून 2004 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हुई तथा दिनांक 01 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित की गयी।

जे के खडवाल  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF DEFENCE  
(ARMY BRANCH)

New Delhi, the 11th September 2004

No. 448, dated the 11th August 2004.—The President is pleased to appoint Shri Ajai Vikram Singh, IAS (UL: 67) on transfer from Ministry of Road Transport & Highways, as Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence w.e.f. 01.7.2004 (FN) until further orders.

SHRIPRAKASH  
Director

No. 449, dated the 11th August 2004.—The President is pleased to appoint Shri Hemanta Bijoy Mahanta (IRS: 87033), as Private Secretary to Raksha Utpadan Rajya Mantri (Shri B.K. Handique) w.e.f. 7.7.2004 (FN) at the level of Director in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- for a period of 5 years or till he ceases to function as Private Secretary to RURM or until further orders, whichever event occurs the earliest.

2. This is in supersession of earlier Notification issued under even number dated 9.7.2004.

The President is pleased to appoint Shri Hemanta Bijoy Mahanta (IRS : 87033), as Private Secretary to Raksha Utpadan Rajya Mantri (Shri B. K. Handique) w.e.f. 7-7-2004 (FN) at the level of Director for a period of 5 years or till he ceases to function as Private Secretary to RURM or until further orders, whichever event occurs the earliest.

The President is pleased to appoint Shri Pradyut Guha as Additional Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Pranab Mukherjee) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- with effect from the forenoon of 24.5.2004 till Raksha Mantri demits office or till further orders, whichever is earlier.

2. This supersedes this Ministry's Notification of even number, dated 28.6.2004.

The President is pleased to appoint Shri Vijender Kumar as 1st PA to Raksha Mantri (Shri Pranab Mukherjee) in the scale of pay of Rs. 65,00—10,500/- with effect from the forenoon of 27.5.2004 till Raksha Mantri demits office or till further orders, whichever is earlier.

2. This supersedes this Ministry's Notification of even number, dated 28.6.2004.

The President is pleased to appoint Shri Ranbir Singh as Assistant Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Pranab Mukherjee) in the scale of pay of Rs. 65,00—10,500/- with effect from the forenoon of 27.5.2004 till Raksha Mantri demits office or till further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Gopinath R. as Assistant Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Pranab Mukherjee) in the scale of pay of Rs. 65,00—10,500/- with

effect from the afternoon of 5.7.2004 till Raksha Mantri demits office or till further orders, whichever is earlier.

V. SARASWATHY  
Under Secy.

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 450, dated the 13th August 2004.—The President is pleased to appoint Shri NV Pillai, JAG (NFSG) as Director Quality Assurance (Stores), HQ DGQA, New Delhi w.e.f. 14 Jun 04 (AN) on promotion as Director Grade-I (Floating) (SAG).

DR. PARVINDER KAUR  
Dy. Secy.

(DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION)

No. 451, dated the 16th August 2004.—The President is pleased to make the following appointment:—

Dr. KV Raghavan, formerly Director, IICT to be Chairman, RAC, with effect from 19 May 2004 (FN) in the Pay Scale of Rs. 24050-650-26000/- on contract basis for a period of three years from the date of joining or attaining 65 years of age or until further orders, whichever is earliest.

JK KHADWAL  
Joint Director (Pers)

No. 452, dated the 11th August 2004.—The Services of Shri Ajay Prasad, IAS (HP: 69) Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence are placed at the disposal of Ministry of Civil Aviation w.e.f. 30.6.2004 (AN).

SHRIPRAKASH  
Director (Estt.)

ARMY BRANCH

No. 453, dated the 12th August 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Surender Kumar (No. 3180156A now JC-489469W),  
01 Feb 2004

Hav Mangla Ram (No. 3176732F now JC-489470L), 21  
Feb 2004

Hav Umed Singh (No. 3173286A now JC-489471N), 01  
May 2004

Hav Vikram Singh (No. 3174294L now JC-489472W),  
01 Jun 2004



Hav Arjun Singh (No. 3175558N now JC-489473Y), 01 Jun 2004

Hav Vijay Singh Saini (No. 3175031Y now JC-489474F), 01 Jun 2004

Hav Dharmatama Nand Kunwar (No. 3175115M now JC-489475K), 01 Jun 2004

Hav Karan Singh (No. 3176499Y now JC-489476M), 06 Jun 2004

Hav Vijay Pal (No. 3177066N now JC-489467L), 19 Mar 2004

Hav Jai Singh (No. 3175252L now JC-489468N), 01 May 2004

#### THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav More Balkrishna Baburao (No. 2779303M now JC-459312F), 31 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jayawant Balakrishna Mahadik (No. 2775125X now JC-459313K), 01 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pawar Gajanan Nathu (No. 2782032L now JC-459314M), 13 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Satpute Vishwanath Panditrao (No. 2780914N now JC-459315P), 12 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dilip Shankarrao Raut (No. 2777478W now JC-459316X), 13 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jadhav Ramchandra Shrirangrao (No. 2779135Y now JC-459317A), 22 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jadhav Tukaram Rajaram (No. 2780699N now JC-459318H), 01 Mar 2004

Hav Yadav Rayashing Shamrao (No. 2780765L now JC-459319L), 01 Mar 2004

Hav Yamakar Bayaji Govind (No. 2782320X now JC-459320A), 01 Mar 2004

Hav Ram Niwas (No. 3176325Y now JC-459321H), 13 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Adhav Tabaji Narayan (No. 2782401X now JC-459322L), 13 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Baradkar Hanumant Ekanath (No. 2776342A now JC-459323N), 13 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Eswararao Y (No. 2782762W now JC-459324W), 12 May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Uttam Shamrao Patil (No. 2779044P now JC-459325Y), 05 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Pratap Rangarao (No. 2789701F now JC-459326F), 15 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Vishnu Bhagawan Jadhav (No. 2779025K now JC-459327K), 22 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Savai Chavan (No. 2779682N now JC-459328M), 01 Apr 2004

Hav Maruti Yallappa Pakhare (No. 2782191H now JC-459329P), 10 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Balu appaji Khot (No. 2782515H now JC-459330K), 19 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Harishchandra Tukaram Kadam (No. 2781969K now JC-459331M), 09 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Mane Machindra Daji (No. 2782163W now JC-459332P), 09 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

#### THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Lakhwinder Singh (No. 3386560P now JC-499404W), 13 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Shabaj Singh (No. 3385898N now JC-499405Y), 07 Jun 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jaspal Singh (No. 3385939M now JC-499406F), 07 Jun 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Atma Singh (No. 3386404L now JC-499407K), 04 Jun 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Beant Singh (No. 3384879W now JC-499408M), 22 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 03 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kewal Singh (No. 3382660H now JC-499389M), 28 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Brahm Saroop Balram Singh (No. 3382023M now JC-499390F), 13 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sardul Singh (No. 3384761P now JC-499391K), 02 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gurmail Singh (No. 3384662M now JC-499392M), 16 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gurtej Singh (No. 3386595L now JC-499393P), 02 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagrup Singh (No. 3387451P now JC-499394X), 16 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Nirbhai Singh (No. 3387665L now JC-499395A), 16 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gulab Singh (No. 3385409X now JC-499396H), 28 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pargat Singh (No. 3386492M now JC-499397L), 05 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Balkar Singh (No. 3382000L now JC-499398N), 01 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sawinder Singh (No. 3382557X now JC-499399W), 30 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gawa Singh (No. 3385909P now JC-499400A), 07 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Nachhatar Singh (No. 3385988P now JC-499401H), 13 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Surjit Singh (No. 3388298W now JC-499402W), 03 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Balvinder Singh (No. 3384466M now JC-499403M), 08 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 03 May 2004 without effect on pay and allowances).

1 GR

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Dilli Prasad Dahal (No. 602470F now JC-602470F), 15 Feb 2003

To be Nb Sub

Hav Devender Singh (No. 5043083Y now JC-602549K), 10 Apr 2004\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on Pay & allces wef 01 Mar 2004).

Hav Bhakt Bahadur Pun (No. 5043137P now JC-602550Y), 01 Apr 2004

Hav Bindu Bahadur Budhathoki (No. 5043345K now JC-602551F), 05 May 2004\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on Pay & allces wef 01 May 2004).

## 11 GR

## To be Nb Sub

Hav Raja Rai (No. 9417361W now JC-634541L), 01 Apr 2004

Hav Rabindra Kumar Rai (No. 9417063A now JC-634542N), 01 Apr 2004

Hav Yam Bahadur Mukhia (No. 9416357F now JC-634543W), 05 Apr 2004@

@(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Apr 2004).

Hav Tika Tamang (No. 9419222L now JC-634544Y), 02 Apr 2004#

#(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Apr 2004).

Hav Tul Bahadur Limbu (No. 9417336X now JC-634545F), 16 Apr 2004\$

\$(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Apr 2004).

Hav Maita Raj Limbu (No. 9416659N now JC-634546K), 13 Apr 2004%

%(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Feb 2004).

Hav Ran Bahadur Limbu (No. 9417557K now JC-634547M), 24 Feb 2004&

&(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Feb 2004).

Hav Aman Lama (No. 9416285H now JC-634548P), 30 Apr 2004\*

\*(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Apr 2004).

Hav Benu Prasad Subha (No. 9415784L now JC-634549X), 10 May 2004+

+(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Apr 2004).

Hav Suresh Subha (No. 9417488Y now JC-634550M), 29 May 2004\*\*

\*\* (Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 May 2004).

## JAT L1

## To be Naib Subedar (GD)

Hav Mohd Afraz (No. 9085311W now JC-593210M), 27 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Raj Kumar (No. 9087870X now JC-593211P), 27 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Mohd Asger (No. 9086946F now JC-593212X), 14 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Behari Lal (No. 9086651L now JC-593213A), 05 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav Parvit Singh (No. 9087787F now JC-593214H), 05 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav GH Nabi Mir (No. 9085918H now JC-593215L), 31 May 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav Abdul Jabar (No. 9085947X now JC-593216N), 31 May 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav Mohd Rafiq Shah (No. 9085156A now JC-593217W), 02 May 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Mar 2004)

Hav Chamail Singh (No. 9083349F now JC-593203W), 03 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav Om Parkash (No. 9086191A now JC-593204Y), 27 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav Jagdish Raj (No. 9086217Y now JC-593205F), 05 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav Deputy Lal (No. 9085203M now JC-593206K), 16 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav Balkar Singh (No. 9086354X now JC-593207M), 16 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav Chander Pan (No. 9087128M now JC-593208P), 29 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

Hav Anchal Singh (No. 9086241P now JC-593209X), 21 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004)

Hav Shankar Dass (No. 9084196P now JC-593195H), 03 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Khalil Ahmed (No. 9084796X now JC-593196L), 03 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Harminder Paul (No. 9086304M now JC-593197N), 16 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Suram Singh (No. 9086127X now JC-593198W), 22 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Ab Rashid Tantray (No. 9088273W now JC-593199Y), 22 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Ashok Singh (No. 9087058X now JC-593200H), 22 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

Hav Parshotam Kumar Saini (No. 9088491P now JC-593201L), 22 Mar 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004)

Hav Chamel Singh (No. 9084901H now JC-593202N), 24 Apr 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004)

#### THE MADRAS REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav M Athisayaraj (No. 2591224A now JC-439395W), 21 Nov 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2003 without effect on pay and allces)

Hav Kumara LB (No. 2588976Y now JC-439386P), 20 Dec 2003

Hav Koppula Nageswara Rao (No. 2590334H now JC-439384K), 01 Mar 2004

Hav A Moorthy (No. 2591215Y now JC-439394N), 01 Mar 2004

Hav Shambhuling Hadapad (No. 2585819F now JC-439390X), 04 Mar 2004

Hav P Parasu Raman (No. 2585719W now JC-439396Y), 01 Apr 2004

Hav V Kannan (No. 2590509A now JC-439379Y), 05 Apr 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 30 Nov 2003 without effect on pay and allces)

Hav Mohanan Pillai PD (No. 2587630H now JC-439343A), 01 Oct 2003

Hav R Mangalam (No. 2583091A now JC-439385M), 01 Dec 2003

Hav David Viegas (No. 2589564K now JC-439387X), 31 Dec 2003

Hav G Sakthi Saravanan (No. 2589797L now JC-439388A), 31 Dec 2003

Hav M Gangadharan (No. 2587977P now JC-439381W), 01 Feb 2004

Hav Jetti Pedda Venkateswaralu (No. 2589939X now JC-439383F), 03 Feb 2004

Hav P Ramesh (No. 2591208H now JC-439392H), 12 Mar 2004

#### THE KUMAON REGIMENT

##### To be Nb Sub

CHM Jiwan Singh Mushuni (No. 4178322A now JC-539390M), 08 Dec 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Shankar Singh Chufal (No. 4177360K now JC-539391P), 28 Nov 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Devki Nandan (No. 4173545N now JC-539375X), 22 Oct 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Yabendar Singh (No. 4177942K now JC-539404F), 29 Nov 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Chand (No. 4174446X now JC-539376A), 14 Sep 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kunwar Singh (No. 4176786Y now JC-539377H), 14 Sep 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Bhim Singh (No. 4172923P now JC-539378L), 15 Oct 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Chandra Punera, SM (No. 4178938N now JC-539405K), 20 Nov 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Radhey Shyam (No. 4174212N now JC-539410P), 20 Nov 2003/01 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rang Lal (No. 4174242L now JC-539352X), 15 Nov 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Karam Chand (No. 4175908L now JC-539403Y), 15 Nov 2003/14 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh (No. 4175019N now JC-539406M), 06 Nov 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Darwan Singh (No. 4175836N now JC-539407P), 06 Nov 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Gopal Dutta (No. 4172204W now JC-539393A), 30 Oct 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Pitamber Datt Pandey (No. 4177648K now JC-539376A), 14 Sep 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Singh (No. 4179264N now JC-539395L), 01 Oct 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Arjun Singh (No. 4179911H now JC-539408X), 22 Nov 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

CQMH Mohan Singh (No. 4174616W now JC-539396N), 24 Nov 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

CQMH Brahm Prakash (No. 4174780Y now JC-539389X), 09 Oct 2003/26 Aug 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Uma Shankar (No. 4176487A now JC-539402W), 15 Nov 2003/13 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Laxmi Chand Yadav (No. 4177697M now JC-539397W), 02 Nov 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

CQMH Om Prakash (No. 4174405N now JC-539379N), 16 Oct 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

CHM Puran Singh (No. 4172819F now JC-539383W), 24 Oct 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Chandra Sekhar Joshi (No. 4173396L now JC-539409A), 02 Dec 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh Jalal (No. 4183695X now JC-539371F), 01 Aug 2003

CHM Om Prakash Yadav (No. 4174031H now JC-539373M), 27 Sep 2003/29 Aug 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Singh (No. 4174273L now JC-539380H), 01 Sep 2003

CHM Laxman Singh (No. 4174262Y now JC-539381L), 27 Sep 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Jeewan Singh Pawar (No. 4178616N now JC-539384Y), 31 Oct 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Shambhu Yadav (No. 4174048W now JC-539411X), 22 Nov 2003/01 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Balwan Singh (No. 4174070F now JC-539412A), 22 Nov 2003/01 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Chandan Singh (No. 4175406H now JC-539413H), 22 Nov 2003/01 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Diwan Singh (No. 4177456M now JC-539370Y), 06 Aug 2003/01 Jul 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

CHM Ram Singh (No. 4177531L now JC-539374P), 03 Oct 2003/29 Aug 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Bhola Datt (No. 4177826F now JC-539398Y), 03 Dec 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagat Singh (No. 4177879A now JC-539382N), 12 Oct 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

RPHM Ratan Singh Deb (No. 4174421L now JC-539369K), 16 Jul 2003/01 Apr 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rameshwar Dayal Yadav (No. 4172172Y now JC-539372K), 13 Oct 2003/01 Aug 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Chandra Singh Rithal (No. 4172178A now JC-539399F), 06 Nov 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

CHM Satyavir Singh (No. 4173423K now JC-539414L), 01 Dec 2003/01 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

CQMH Pushkar Lal (No. 4176894H now JC-539400L), 11 Nov 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kundan Singh (No. 4179468A now JC-539401N), 24 Nov 2003/07 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Datt Bhatt (No. 4176552P now JC-539415N), 24 Nov 2003/01 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

#### THE NAGA REGIMENT

Hav Kikheho Sema (No. 14702884Y now JC-590138W), 29 Sep 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Gambir Kumar Pradhan (No. 14700846K now JC-590135H), 28 Oct 2003/01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

CQMH Pratap Singh (No. 4173129K now JC-590136L), 26 Oct 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

CHM Nandan Singh (No. 4173703X now JC-590137N), 26 Oct 2003/01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

#### THE DOGRA REGIMENT

##### To be Nb Sub (GD)

Hav Karnail Singh (No. 3979534H now JC-519851K), 01 Jan 2004+

+(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Vir Singh (No. 3984713M now JC-519852M), 10 Mar 2004

Hav Dev Raj (No. 3985621M now JC-519853P), 12 Mar 2004

Hav Ram Lal (No. 3981506P now JC-519854X), 16 Mar 2004

Hav Mohinder Singh (No. 3982102Y now JC-519855A), 23 Mar 2004

Hav Dilbag Singh (No. 3981570M now JC-519856H), 26 Mar 2004

Hav Sudagar Ram (No. 3980963W now JC-519857L), 01 Apr 2004

Hav Raghubir Singh (No. 3981641H now JC-519858N), 06 Apr 2004

Hav Krishan Chand (No. 3980445W now JC-519859W), 01 May 2004

##### To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Swaran Kumar Bal (No. 3382284A now JC-519860L), 01 Apr 2004

#### THE ASSAM REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Vungzasuan (No. 4353735H now JC-548963M), 24 Apr 2004/02 Jan 2004\*

Hav Joy Kumar Sinha (No. 10244606L now JC-548965X), 18 Mar 2004/01 Feb 2004\*

Hav C Khonbenthung Lotha (No. 4353549M now JC-548959K), 25 Mar 2004/01 Nov 2003\*

Hav Man Bahadur Thapa (No. 4353591L now JC-548960Y), 23 Mar 2004/01 Dec 2003\*

Hav Nima Dondua (No. 4354034H now JC-548961F),  
23 Mar 2004/01 Mar 2004\*

Hav Upen Kumar Boro (No. 4352723F now JC-548993K),  
31 Mar 2004

Hav Brojen Chetia (No. 4353407P now JC-548994M),  
31 Mar 2004

Hav Dharmeswar Borah (No. 4353490X now JC-548970H), 17 Apr 2004/01 Mar 2004\*

Hav Rup Chand Ray (No. 4353306F now JC-548980M),  
15 Apr 2004/01 Jan 2004\*

Hav Upen Borah (No. 4358874W now JC-548986N), 06  
May 2004/01 Apr 2004\*

Hav Barun Chisim (No. 4355414K now JC-548996X),  
21 May 2004/01 Apr 2004\*

Hav Chabilal Thapa (No. 4355813N now JC-548987W),  
06 May 2004/01 Apr 2004\*

Hav Thokchom Kumar (No. 4358328K now JC-548981P), 14 May 2004/01 Jan 2004\*

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Ajit Singh (No. 4357833A now JC-548989F),  
05 May 2004/01 Apr 2004\*

Hav Clk Ravi Prakash (No. 4357826K now JC-548988Y),  
06 May 2004/01 Apr 2004\*

\*(Granted seniority w.e.f.)

#### THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD/Clk (GD))

Hav Sri Ram Hansda (No. 4264837K now JC-559263Y),  
01 Mar 2004/01 Sep 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 01 September 2003 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Libin Ekka (No. 4265833A now JC-559264F), 01  
Mar 2004/29 Sep 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 29 September 2003 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Brahamdeo Prasad (No. 4263273A now JC-559265K), 07 Dec 2003/01 Nov 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 01 November 2003 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Sukant Kumar Behera (No. 8031138N now JC-559266M), 25 Mar 2004/01 Nov 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 01 November 2003 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Charwa Minj (No. 4263103W now JC-559267P),  
28 Mar 2004/01 Dec 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 01 December 2003 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Fudan Majhi (No. 4261234H now JC-559268X),  
10 Apr 2004/04 Dec 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 04 December 2003 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Pradeep Kumar Jha (No. 4261419K now JC-559269A), 28 Mar 2004/07 Dec 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 07 December 2003 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Mahesh Rai (No. 4259960Y now JC-559270P), 10  
Feb 2004/01 Jan 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 01 January 2004 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Sudhir Toppo (No. 4261526L now JC-559271X),  
13 Feb 2004/01 Jan 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 01 January 2004 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Shivji Singh (No. 4262558A now JC-559272A),  
20 Mar 2004/01 Jan 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 01 January 2004 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Benudhar Sahu (No. 4260786K now JC-559273H),  
01 Mar 2004/01 Feb 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 01 February 2004 without effect on pay and  
allowances.)

Hav/Clk Ratnakar Barik (No. 4264167N now JC-559274L), 01 Mar 2004

Hav Silvanes Bilung (No. 4258941F now JC-559276W),  
18 Mar 2004/19 Sep 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 19 September 2003 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Sri Ram Sewak (No. 4259048M now JC-559277Y),  
18 Mar 2004/29 Sep 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with  
effect from 29 September 2003 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Sarat Chandra Swain (No. 4262148K now JC-559278F), 18 Mar 2004/01 Nov 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 November 2003 without effect on pay and allowances.)

Hav Albinus Barwa (No. 4261888M now JC-559279K), 21 Feb 2004/15 Nov 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 November 2003 without effect on pay and allowances.)

Hav Ram Gati Mahto (No. 4262438F now JC-559280Y), 29 Apr 2004/07 Dec 2003 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 07 December 2003 without effect on pay and allowances.)

Hav Chitranjan Prasad Singh (No. 4261039L now JC-559281F), 15 Apr 2004/01 Jan 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 January 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Ram Lal Mahto (No. 4268281W now JC-559282K), 25 Mar 2004/01 Jan 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 January 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Ashok Kumar Mishra (No. 4259606K now JC-559283M), 10 May 2004/01 Jan 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 January 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Rabindra Nath Panda (No. 4262332P now JC-559284P), 18 Mar 2004/01 Jan 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 January 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Kushal Kandulna (No. 4263337A now JC-559285X), 15 Apr 2004/01 Jan 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 January 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Parameshwar Naik (No. 4263216Y now JC-559286A), 18 Mar 2004/01 Feb 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 February 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Ram Ekbal Sharma (No. 4259315K now JC-559287H), 01 Apr 2004/15 Feb 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 February without effect on pay and allowances.)

Hav Upendra Chandra Sarkar (No. 4261401N now JC-559288L), 01 Apr 2004/15 Feb 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 February 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Pradipta Kumar Parida (No. 4263546X now JC-559289N), 01 May 2004/01 Mar 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 March 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav John Tigga (No. 4260653N now JC-559290H), 14 Apr 2004/01 Apr 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 April 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Brindaban Bag (No. 4261970F now JC-559291L), 01 Apr 2004

Hav Ram Pavitra Ray (No. 4258495L now JC-559292N), 02 May 2004/21 April 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 21 April 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Rama Chandra Mukuta (No. 4261977L now JC-559293W), 15 May 2004/28 April 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28 April 2004 without effect on pay and allowances.)

#### THE GARHWAL RIFLES

##### To be Nb Sub

Hav Himant Singh (No. 4062003P now JC-529597Y), 18 Apr 2004/01 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Harendar Singh (No. 4061646A now JC-529598F), 24 Feb 2004/01 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Rajpal Singh (No. 4060976M now JC-529599K), 24 Feb 2004/01 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Sateshwar Prasad (No. 4060998L now JC-529600N), 26 Feb 2004/01 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Prasad (No. 4062160F now JC-529601W), 01 Feb 2004



Hav Bijay Singh (No. 4062531Y now JC-529602Y), 01 Mar 2004

Hav Ramesh Singh Chaudhari (No. 4063402L now JC-529603F), 01 Mar 2004

Hav Brij Mohan Singh (No. 4062195X now JC-529604K), 03 Mar 2004

Hav Subhash Chandra (No. 4062332L now JC-529606P), 01 Apr 2004

Hav Surender Singh (No. 4062843X now JC-529607X), 01 Apr 2004

Hav Dhani Lal (No. 4062821W now JC-529608A), 01 Apr 2004

Hav Sudarshan Negi (No. 4064090M now JC-529609H), 01 Apr 2004

Hav Chandan Singh (No. 4064666Y now JC-529610X), 01 Apr 2004

Hav Matbar Singh (No. 4064356M now JC-529611A), 01 Apr 2004

Hav Harsh Singh (No. 4064369L now JC-529612H), 01 Apr 2004

Hav Balwant Singh (No. 4062470M now JC-529613L), 01 Apr 2004

Hav Bhaskar Chand (No. 4065207H now JC-529614N), 01 Apr 2004

Hav Ram Swaroop (No. 4064668K now JC-529615W), 06 Apr 2004/03 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Apr 2004 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Santosh Kumar (No. 4063393M now JC-529605M), 01 Apr 2004

Hav (Clk) Tirath Singh (No. 4060447A now JC-529616Y), 01 May 2004

To be Nb Sub

Hav Madan Singh (No. 4065094P now JC-529579W), 26 Mar 2004/01 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Rewat Singh (No. 4063041X now JC-529580L), 05 Mar 2004/01 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Pradeep Kumar (No. 4065503X now JC-529581N), 01 Feb 2004

Hav Khusal Singh (No. 4063728F now JC-529583Y), 01 Mar 2004

Hav Mahipal Singh (No. 4063975P now JC-529584F), 01 Mar 2004

Hav Meharban Singh (No. 4062191F now JC-529585K), 01 Mar 2004

Hav Trilok Singh (No. 4064339N now JC-529586M), 01 Mar 2004

Hav Vesakh Singh, SM (No. 4063409P now JC-529587P), 01 Mar 2004

Hav Gaje Singh (No. 4061735Y now JC-529588X), 07 Mar 2004

Hav Rakesh Chand (No. 4062588N now JC-529589A), 18 Mar 2004

Hav Nandan Singh (No. 4073736N now JC-529592A), 01 Apr 2004

Hav Sushil Prakash (No. 4061840P now JC-529593H), 01 Apr 2004

Hav Bhaghand Singh (No. 4062158K now JC-529594L), 01 Apr 2004

Hav Sultan Singh (No. 4062718L now JC-529595N), 01 Apr 2004

Hav Chaman Singh (No. 4062314H now JC-529596W), 01 Apr 2004

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) OmPrakash Barthwal (No. 4061591F now JC-529582W), 01 Mar 2004

Hav (Clk) Tajwar Singh (No. 4061596 now JC-529590P), 01 Apr 2004

Hav (Clk) Dalvir Singh (No. 4062486X now JC-529591X), 01 Apr 2004

DIWAKAR  
Under Secy.

No. 454, dated 17th August 2004—The President is pleased to make the following promotions—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)

B Sadananda, AVSM, VSM (MR-02051M), 29 Mar 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 01.02.2004.

AK Bakhshi, VSM (MR-02745M), 29 Mar 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 02 Feb 2004.

Brig (& equivalent) to be Surg RADM (& equivalent)

VK Singh (MR-2277X now JC-75848F), 05 Apr 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 02 July 2003.

Lt. Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

MR Sharma (MR-4502A), 14 August 2003 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Apr 2003.

M. SRIVASTAV  
Brig  
Dy. DGAFMS(P)

No. 455, dated 16 August 2004—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

Permanent Commission

Lt. Col. to be Substantive Col

XP Adrianwalia (IC-34012), AC, 01 Dec 2000

Yashpal Singh (IC-34045), Inf. 01 Dec 2000

HS Sachdev (IC-34098), Inf. 01 Dec 2000

KC Thakur (IC-34190), Inf. 01 Dec 2000

VJ Cherian (IC-34228), AOC, 01 Dec 2000

NK Dutta (IC-34247), Inf., 01 Dec 2000

AK Mahajan (IC-35793), SME, 01 Dec 2000

M. Singh (IC-35807), Sigs 01 Dec 2000

A Kumar (IC-35808), Engrs, 01 Dec 2000

SY Mehta (IC-35827), EME, 01 Dec 2000

NK Sharma (IC-35838), EME, 01 Dec 2000

JKT Varkey (IC-35873), EME, 01 Dec 2000

J.S. Puri (IC-32392), AOC, 01 Nov 1994

Prashant Prakash (IC-36041), Inf, 01 Jan 1999

BS Pannu (IC-31764), Inf, 01 Dec 2000

Krishna Swamy, (IC-35797), Engrs, 01 Dec 2000

CKR Krishnan (SL-02326), 01 Dec 2000

Majors to be Substantive Col (Time Scale)

SP Singh (IC-37834), ASC 12 Nov 2001.

AR Thapan (IC-39635), Arty, 13 June 2001

A Singh (IC-39740), Arty, 13 June 2001

SY Ago (IC-39733), Arty, 13 June 2001

J George (IC-37780), Inf., 29 Apr 2001

SK Tomer (IC-41032), EME, 24 Dec 2002

Chander Puri (IC-41263), EME, 18 June 2002

AR Prakash (IC-41739), SIGS, 17 Dec 2002

Rakesh Malik (IC-45240), ENGR, 25 Apr 2002

N Subramanian (IC-41540), ADA, 17 Dec 2003

A Sahai (IC-45030), ADA, 26 Apr 2003

RC Sharma (IC-45284), Inf, 25 Apr 2004

GS Rathore (IC-45270), AC, 25 Apr 2004

Jasbir Singh (IC-45237), Arty, 25 Apr 2004

Radha Krishnan (IC-45208), EME, 25 Apr 2004

PK Srivastava (IC-45259), Arty, 25 Apr 2004

S. S. SINHA  
Dy. Dir.  
DAMS-8A

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 456, dated 16th August 2004—The President is pleased to promote Shri RN Kulkarni, Sc 'D', Dte. of electronics, DRDO HQ to the next higher grade of Sc 'E' in the pay scale of 14,300-400-18,300 with effect from 09 Jul 2004 i.e. from the date he joined duty on return from leave.

Shri KK Chakravarthy, Senior Store Officer Grade-II of HEMRL, Pune to be Senior Store Officer Grade-I in the same Lab with effect from 05 Jan 2004 in the pay scale of Rs. 10,000-15,200.

Smt. Saroj Sareen, Personal Assistant 'C' is promoted as Private Secretary 'A' in SSPL, Delhi in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 01.09.2003 (FN).

The undermentioned Scientists of INMAS, Delhi to be Scientists in the next higher grade as mentioned against each in DRDS in the same establishment with effect from 01 July 2004 (F/N):—

Sl. No.	Name	Designation	Promoted to the Grade of	Scale of Pay (Rs.)
	Dr./Shri/Smt.			
1.	BS Dwarakanath	Scientist 'E'	Scientist 'F'	16,400-450-20,000
2.	Shushil Chandra	Scientist 'D'	Scientist 'E'	14,300-400-18,300
3.	Pradeep Kr. Chugh	Scientist 'D'	Scientist 'E'	14,300-400-18,300
4.	Rajnish Sharma	Scientist 'D'	Scientist 'E'	14,300-400-18,300
5.	Ms. R Chandra	Scientist 'D'	Scientist 'E'	14,300-400-18,300
6.	NK Chaudhary	Scientist 'D'	Scientist 'E'	14,300-400-18,300
7.	Rajeev Varshney	Scientist 'C'	Scientist 'D'	12,000-375-16,500
8.	S Senthil Kumaran	Scientist 'C'	Scientist 'D'	12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of DRDO HQ from their existing grade to the

next higher grade w.e.f. 01.07.2004 as mentioned against each :—

Name	HQ/Dte.	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Sh. VN Kapoor	Dte of Electronics	'F'	'G'	18,400-500-22,400
Sh. RR Bhatnagar	-do-	'E'	'F'	16,400-450-20,000
Dr. S Vathsal	Dte of ER&IPR	'F'	'G'	18,400-500-22,400
Smt. Alka Suri	DBF&A	'D'	'E'	14,300-400-18,300
Sh. Jagdeep	DMM	'C'	'D'	12,000-375-16,500
Sh. Jitender Chugh	DCS	'D'	'E'	14,300-400-18,300
Sh. Sunil Sharma	CCR&D (TMS)	'D'	'E'	-do-
Dr. KN Khatri	Dte of Armt.	'D'	'E'	-do-
Sh. Gopal Bhushan	SA to RM	'E'	'F'	16,400-450-20,000
Dr. Devendra Singh	DGM	'E'	'F'	-do-
Sh. Gautam Aich	DOM	'E'	'F'	-do-
Dr. AK Tripathi	DOM	'E'	'F'	-do-
Sh. Arun Seth	SA to CNS	'E'	'F'	-do-
Dr. KS Manja	DOP	'F'	'G'	18,400-500-22,400

JK KHADWAL  
Jt. Dir. (Pers)

#### AIR FORCE

No. 457, dated 17th August 2004—The President is pleased to make the following Substantive promotion :—

#### INDIAN AIR FORCE

##### AE(M) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Rajdeep Singh (26271), S K Dhiman (25958), SAR Antony (25950), MD Salam (25945), Sudhir Pandita (25956), Siddharth Kumar (25947), A Vasudev (25940), Divin R (25949), Unnikrishnan (25965), Datta V (25966), Anish Kumar J (25954), DD Bhende (25960), YS Mehra (25961), DSN Murthy (25939), a Banerjee (25937), PP Prasanth (25963), Abraham Alex (25934), Umesh Pujari (25964), Biswajit Sarmah (25959), Sharma P (25943), Davuluri L Kiran (25955), KD Kochhar (25933) wef 01 January 2003. A Singh (26272), Riten Patel (25951), Anirudh Nain (25942) with effect from 06 January 2003.

##### AE(L) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Karthikeyan (26003), D Singh (25984), MA Dubey (26004), Sharesh Kumar (25983), DR Yadav (26276), HS

Chauhan (25994), Vibhu Sharma (25978), CS Hiremath (25992), G Elangovel (25993), Anuj Tiwari (25986), Ajalie Zuyie (25987), Sudhakaran S (25973), Rakesh Kumar (25981), SS Panda (25989), MS Priyani (25988), Alok Kumar (25996), VK Mishra (25970), B Magesh Kumar (26005), Satpal Singh (25972), wef 01 January 2003. MK Labroo (25977), Nitin Kanade (25982), Jastaj Singh (26007), Sandeep Kumar (26000), V Manoj Kumar (25971) with effect from 06 January 2003.

##### AE(M) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Manish Agarwal (25757), PK Mittal (26077), Ashesh Kumar Vajani (25738), RP Sharma (25751), Singh Amit (25736), Bipin V Patil (25735), MS Swaminathan (25733), V Chopra (25748), DG Patil (25747), TD Singh (25760), Arshdeep Singh (25756), Manish shastri (25743), Mahesh R Bailakanwar (25726), Ghumman GS (25761), Rajesh Gupta (25742), Sanjeev Kumar (25754), Kiran Arun Kokate (25759), P Ashok Kumar (25729), Pankaj Kumar (25750), BM Shivanand (25737), B Anandhan (25741), Shitesh K Srivastava (25746), Sharma AK (25744), Rajesh. Vashisht (25755), SD Harishchandra (25732), Praveen Kumar (25730), Pareek R (25723), M Jeevan Reddy (25734), Navendu Vats (25725), Prashant Behera (25727), Amit Garg (25731), Ashwini Kumar Singh (25728), Arup Kumar Allamann (25740), Viney Kumar Sharma (25724), Harsimran singh (25745), with effect from 24 Jul 2002. Sharma MK (25758), Sumeet Sohal (25749), Bhardwaj V (25752), Gautam Narjary (25739), Shashank Shekhar (25753), with effect from 06 January 2003.

##### AE(L) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Anil Bajaj (25766), Shah AIA I Shah (25769), Ashish Sharma (25778), A Rajesh (25786), Reshma vohra (25774), Kuldeep Singh Tikoo (25762), Prem Bahadur (25787), Akhilesh K Mishra (25773), Khutail PS (25771), Abhishek Govil (25765), Kanhaiya Lal Tomar (25768), Arvind Rawat (25779), Sanal G (25783), R Padma Kumar (25784), N Krishna Kishore (25777), U Kumar (25782), Jagvinder Pal Singh (25764), Arun Kumar Mendiratta (25763), RS Sambyal (25495), Viveka Nand Mishra (25776), Taorem Devakanta Singh (25772), Upendra Chaturvedi (25770), Toshiho Kiba (25781), Girish Kumar BS (25788), with effect from 24 July 2002. Shaji C Thomas (25767), Upadhyay SK (25775), Firoz B (25780) with effect from 06 January 2003.

##### F(P) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

P Arun Kumar (25838), Huvey Upadhyaya (25850), Akhilesh Singh F (25868), 18 December 2003, Dharmaraj Hariharan (25856), wef 18 December 2003.

Anurag Khurana (25819), Prashant Grover (25820), Harpreet Singh Luthra (25821), Girish Dantale (25822),

Elvis Clinton Rodrigues (25823), Tarun Gupta (25824), Mannem Srikanth (25825), Karam Herojit Singh (25826), Subhash Singh Rao (25827), Pradeep Bhola (25828), Alok Sharma (25829), Debarshi Bagchi (25832), Narender Singh Panwar (25833), Arnab Nath (25834), Geemon Joseph (25835), Arvind Kumar (25836), Ritam Kumar (25837), Tushar Shridhar Vaidya (25839), P Sivaram (25840), Prem Anand (25842), Abhijeet Prakash Kadav (25843), Vikrant Yadav (25844), Sachin Anand Gadre (25846), Rakesh Kumar (25847), Prashant Suryawanshi (25848), Sai Prasad Dora (25849), Deepesh Kumar (25853), Sachin Gupta (25854), Sameer Mehra (25855), M Pargunan (25857), A Vijay Kumar (25858), Ritin Jain (25859), Prashant Sitaram Chavan (25861), Anand Arun Nisal (25862), Ashish B Dhanake (25863), Sameer Sharma (25864), Bikramjit Singh Grewal (25865), Zuber AV Shaikh (25866), Rajesh Kumar Alawaadhi (25867), Amit Sarmai (25869), Sunil Kumar Deshwal (25870), Tarun Kumar Chaudhri (25871), Vineet Kumar Joshi (25872), Gautam Narain (25873), K Somnathan (25874), Vinoy Kuttappan (25875), Arjuna Vinoba (25876), Shivang Kumar (25877), 18 December 2003.

#### F(N) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Aparajit Bisht (25878), Webster Silvan Vas (25879), RK Reddy (25880), A Venkat Reddy (25881), Rahul Chand (25882), Kuldeep Singh Aswal (25883), VS Shivtare (25885), SM Azad (25886), 18 December 2003.

S. SRIVASTAV  
Sqn. Ldr.  
DDPO 3(D)

No. 458, dated 11th August 2004—The President is pleased to retire Shri Amrit Lal, CSS, Section Officer (ad-hoc), Ministry of Defence with effect from 30.4.2004 (A/N) on attaining the age of superannuation.

V. SARASWATHY  
Under Secy.

No. 459, dated 11th August 2004—The President is pleased to retire Shri D.P. Single, CSS, Desk Officer, Ministry of Defence with effect from 30.6.2004 (A/N) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri Madhusudan Kala, CSS, Section Officer, Ministry of Defence with effect from 30.6.2004 (A/N) on attaining the age of superannuation.

S. P. TRIPATHI  
Under Secy.

#### RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 460, dated 11th August 2004—On attaining the age of superannuation viz 60 years, Shri P.J. Sonnie, Section Officer, R&D Orgn. retired from service w.e.f. 30 Jun 2004 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 1 Jul 2004).

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 461, dated 16th August 2004—Consequent upon attaining the age of superannuation Dr. J. P. Agrawal, Sc 'G', DRDO HQ retired from service with effect from 30 Jun 2004 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 01 July 2004 (F/N).

Consequent upon attaining the age of superannuation Smt. Neela Parthasarathy, Sc 'D' DRDO HQ retired from service with effect from 30 Jun 2004 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 01 July 2004 (F/N).

J. K. KHADWAL  
Jt. Dir. (Pers)